

[This question paper contains 6 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 977

A

Unique Paper Code : 22415403

Name of the Paper : Insurance and Risk Management

Name of the Course : **B.Com. (H) – CBCS**

Semester : IV

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 75

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt all **five** questions.
3. **All** questions carry equal marks.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए ।
2. सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
3. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

P.T.O.

1. What is risk mapping? What are the important characteristics of risk maps? Explain with the help of an example. (15)

OR

Distinguish between –

- (a) Pure risk and speculative risk
- (b) Risk retention and risk transfer
- (c) Static and dynamic risk (15)

जोखिम मानचित्रण क्या है ? जोखिम मानचित्रण की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं ? एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए ।

या

निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए –

- (क) शुद्ध जोखिम और काल्पनिक जोखिम
- (ख) जोखिम प्रतिधारण और जोखिम हस्तांतरण
- (ग) स्थिर और गतिशील जोखिम

2. (a) Define reinsurance. What are the objectives of reinsurance? (10)

- (b) Explain the concept of nomination in insurance. (5)

OR

What do you understand by coinsurance? What are different methods used for coinsurance? Differentiate between coinsurance and reinsurance. (15)

(क) पुनर्बीमा को परिभाषित कीजिए। पुनर्बीमा के उद्देश्य क्या हैं ?

(ख) बीमा में नामांकन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

या

सहबीमा से आप क्या समझते हैं ? सहबीमा के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियाँ क्या हैं ? सिक्का बीमा और पुनर्बीमा के बीच अंतर कीजिए।

3. Explain the following –

- (a) Principle of proximate cause
- (b) Principle of utmost good faith
- (c) Principle of subrogation

OR

How insurance sector of India is globalizing? What are the benefits of globalizing insurance sector of India? (15)

निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए -

(क) निकटतम कारण का सिद्धांत

(ख) अत्यंत सद्भाव का सिद्धांत

(ग) प्रस्थापन का सिद्धांत

या

भारत का बीमा क्षेत्र कैसे वैश्वीकरण कर रहा है ? भारत के बीमा क्षेत्र के वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं ?

4. Explain the term health insurance. What are the health hazards, generally, covered under the health insurance policy in India? (15)

OR

(a) Explain various types of marine insurance covers available in India.

(b) Define fire insurance. Explain important features of standard fire policy. (7.5×2=15)

स्वास्थ्य बीमा शब्द की व्याख्या कीजिए । आम तौर पर भारत में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य जोखिम कौन से हैं ?

या

(क) भारत में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के समुद्री बीमा कवरों की व्याख्या कीजिए ।

(ख) अग्नि बीमा को परिभाषित कीजिए । मानक अग्नि नीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए ।

5. Describe the composition of IRDA. Briefly explain the powers, functions and duties of IRDA. (15)

OR

Write short notes on any **three** of the following :

(5×3=15)

(a) Control of malpractices in India

(b) Automobile insurance in India

(c) Assignment

(d) Principle of contribution

आईआरडीए की संरचना का वर्णन कीजिए । आईआरडीए की शक्तियों, कार्यों और कर्तव्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए ।

P.T.O.

या

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(क) भारत में कदाचार पर नियंत्रण

(ख) भारत में ऑटोमोबाइल बीमा

(ग) असाइनमेंट

(घ) अंशदान का सिद्धांत